

प्रेस नोट

मित्रता के रिश्ते को शर्मसार कर अपने ही मित्र की हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को थाना बीसलपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार।

दिनांक 12.09.2022 को थाना दियोरिया कला क्षेत्रान्तर्गत खन्नौद नदी में एक शव ग्राम चौकीदार की सूचना पर बरामद हुआ जिसकी पहचान हिमांशु गंगवार पुत्र हरप्रसाद गंगवार निवासी ग्राम नगीपुर भडरिया थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत के रूप में मृतक के पिता हरप्रसाद द्वारा की गयी, मृतक हिमांशु दिनांक 11.09.22 से गुमशुदा था जिसके सम्बन्ध में थाना बीसलपुर पर मु0अ0सं0 558/2022 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में अभियुक्त 1. विकास पुत्र सत्यपाल 2. विजय पुत्र हरिशरण निवासी गण ग्राम अहरौला थाना भुता जनपद बरेली के नाम प्रकाश में आये, घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक पीलीभीत द्वारा 03 टीमें गठित गयी जिसके फलस्वरूप टीमों द्वारा प्रभावी व त्वरित कार्यवाही करते हुये अभियुक्तगण 1. विकास, 2. विजय उपरोक्त को रम्पुरा रोड से गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण विकास व विजय उपरोक्त ने एकमत होकर बताया कि मैं और विजय एक ही गांव के है आपस में दोस्त है, ग्राम नगीपुर भडरिया का हिमांशु भी हमारा दोस्त था हम सभी लोग सरस्वती विद्या मन्दिर में पिछले कई साल से पढते हैं, विजय ने कई साल पहले सरस्वती स्कूल छोड दिया था दोस्त होने के नाते हमारा विजय के कमरे पर और उसके फूफा के यहाँ भी आना जाना था वह सब लोग भी हम दोनों को जानते व पहचानते हैं। लगभग 03 महीने पहले मैंने हिमांशु से 20 हजार रुपये उधार लिये थे जो मुझसे खर्च हो गये। हिमांशु मुझ पर बार-बार पैसे वापस करने का दबाव बना रहा था लेकिन मैं पैसे का इन्तेजाम नहीं कर पा रहा था। विजय मेरा पक्का दोस्त है मैंने अपनी समस्या विजय को बतायी और हम दोनो ने हिमांशु से छुटकारा पाने के लिए उसे रास्ते से हटाने का प्लान कुछ दिन पहले ही बनाया था। दिनांक 11.09.2022 को रविवार के दिन दोपहर के समय पूर्व योजना के मुताबिक मैं और

विजय अपने गांव से अपनी मो0सा0 UP25DM2713 हीरो स्पलेण्डर प्लस रंग काला से चले । मैने अपने मोबाईल नम्बर 8057654489 से हिमांशु के मोबाईल न0- 9815426815 पर फोन करके उसे बहाने से बीसलपुर बुलवाया और हम तीनों मेरी मो0सा0 से पूरनपुर घूमने जाने का बहाना बनाकर हिमांशु को दियोरिया कलां वन विभाग के जंगल में खन्नौद नदी के पुल पर ले गये वहाँ से नदी में मगरमच्छ दिखाने का बहाना बनाकर पुल से नीचे जंगल में ले गये और बातों ही बातों में विजय ने अपने गले में पडे काले रंग के गमछे से हिमांशु का मुँह लपेटकर उसे गला घोटकर मारने का प्रयास किया लेकिन हिमांशु चिल्लाने लगा तो हम दोनों ने मिलकर उसे एकदम नदी में पानी में खींच लिया, विजय ने उसके दोनों पैर पकड लिये और मैने उसकी गर्दन पकडकर पानी में डूबो दिया थोडी ही देर में हिमांशु का शरीर ढीला पड गया। इस प्रकार हम दोनों ने मिलकर पानी में डूबो-डूबो कर हिमांशु की हत्या कर दी

बरामदगी का विवरण

एक काले रंग की हीरो स्पलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल नम्बर UP 25DM 2713 व एक काले रंग का गमछा व एक जोडी हवाई चप्पल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1.प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार
- 2.निरीक्षक अपराध श्री अरुण कुमार
- 3.उ0नि0 श्री नवीन कुमार
- 4.का0 कपिल भाटी
- 5.का0 आकाश कुमार